

# अमर उजाला

## Agra: ब्रांडेड का झांसा देकर बेच रहे थे नकली अंडरवियर, कंपनी ने जासूसों से कराई जांच, तीन दुकानदार गिरफ्तार

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: [मुकेश कुमार](#) Updated Mon, 29 Aug 2022 12:07 AM IST

### सार

आगरा में नकली माल बेचने के चौकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। इस बार खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि नकली अंडरवियर बेचने वाले तीन दुकानदार पकड़े गए हैं। ये दुकानदार कंपनी के नाम से नकली माल बेच रहे थे।



ताजनगरी में अब नकली अंडरवियर भी बेचे जा रहे हैं। ग्राहकों को ब्रांडेड का झांसा देकर धोखाधड़ी की जा रही है। कंपनी की टीम ने पुलिस की मदद से सुभाष बाजार में छापा मारा तो यह सच सामने आया। तीन दुकानदारों को पकड़ लिया गया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनसे नकली अंडरवियर भी बरामद किए गए। पुलिस विवेचना कर रही है।

कोलकाता की ऑलवेज डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हबीब उर रहमान और जांच कार्यकर्ता देशपाल सिंह ने दो दिन पहले एसएसपी से शिकायत की थी। वह माचो कंपनी के मामले में जांच के लिए नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि सुभाष बाजार में माचो कंपनी के नकली अंडरवियर बेचे जा रहे हैं। इस पर कार्रवाई की मांग की। मामले में थाना मंटोला पुलिस को जांच के आदेश दिए गए।

पुलिस ने दुकानदारों को पकड़ा

पुलिस ने बाजार में पहुंचकर दुकानदार पथवारी निवासी अतुल कुमार, गिरधर लाल त्रिलोक चंद के दुकानदार विजय नगर कॉलोनी निवासी राजेंद्र कुमार और प्रकाश ड्रेसेस के दुकानदार कमला नगर निवासी रवि प्रकाश अग्रवाल को पकड़ लिया गया। आरोप है कि दुकानों पर माचो के नाम से नकली अंडरवियर की बिक्री की जा रही थी। मामले में हबीब उर रहमान की तहरीर पर धोखाधड़ी, कापीराइट अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया।

एसओ मंटोला राजवीर सिंह ने बताया कि दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में सात साल से कम की सजा होने पर आरोपियों को जमानत दी गई। विवेचना की जा रही है। नकली अंडरवियर बेचने पर दुकानदारों को ज्यादा मुनाफा हो रहा था।

लास्टिक पर लिखा था मांचो

अतुल कुमार की दुकान पर मिली अंडरवियर की लास्टिक पर माचो लिखा था। इसे माचो के रूप में बताकर बेचा जा रहा था। दुकानदार से 33 पैकेट बरामद हुए। इनमें 330 अंडरवियर रखे थे। इनके यहां भी अलग नाम की अंडरवियर मिली। इसे भी माचो बताकर बेचा जा रहा था। 102 अंडरवियर बरामद की गईं। रवि प्रकाश अग्रवाल की दुकान से 222 नकली अंडरवियर मिले। इन पर भी अलग नाम लिखा था।

यह भी मिल चुके हैं नकली

आगरा में नकली माल बेचने का यह पहला मामला नहीं है। एत्मादौला, छत्ता और ताजगंज में बड़े स्तर पर नकली मोबिल आयल के कारखाने पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा घी, तेल, रिफाईंड, ऑटो पार्ट्स, सीमेंट, धूपबत्ती, दवाइयां, दूध भी नकली मिल चुकी है। पुलिस आरोपियों को जेल भी भेज चुकी है। मगर, लगातार मामले सामने आ रहे हैं।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/three-shopkeepers-arrested-for-duplicate-underwear-in-agra?pageld=1>